

SydWest

Multicultural Services

Disability Services
(विकलाँगता सेवाएँ)

सँस्कृतियों को जोड़ना। समुदाय का निर्माण करना।

एनडीआईएस सेवाएँ

साँस्कृतिक
रूप से सक्षम
समर्थन कर्मी

विकलाँगता
रोजगार
सेवाएँ

मध्यस्थता
सेवाएँ

द्विभाषी
कर्मी

SydWest Multicultural Services एक अग्रणी सामुदायिक संगठन है। हमारा उद्देश्य विविधतापूर्ण समुदायों की सामाजिक क्षमता के निर्माण में योगदान देना है। हम व्यक्ति-केंद्रित प्रत्यक्ष सेवाएँ उपलब्ध कराके सभी संस्कृतियों के लोगों को सशक्त बनाने का प्रयास करते हैं। हम जीवन की यात्रा में कमजोर और सबसे अधिक ज़रूरतमंद लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

SydWest Multicultural Services का चयन क्यों करें?

हमारे लोग आपकी भाषा बोलते हैं और आपको अपने दैनिक जीवन में समर्थन दे सकते हैं, ताकि आप स्वतंत्र रूप से रह सकें और अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्त कर सकें। आपको जो समर्थन प्राप्त होता है, उसपर आपका नियंत्रण और विकल्प सुनिश्चित करने के लिए हम आपके साथ मिलकर काम करते हैं। हम अपने लिए और अधिक कार्य-कलाप करने और समुदाय का हिस्सा बनने के लिए आवश्यक कुशलताएँ प्राप्त करने में आपको सहायता देते हैं।

NDIS Services (एनडीआईएस सेवाएँ)

SydWest Multicultural Services एक एनडीआईएस-पंजीकृत प्रदाता है और एनडीआईएस सेवाएँ प्राप्त करने के लिए CALD समुदायों को समर्थन प्रदान करती है। अपनी सभी एनडीआईएस समर्थन आवश्यकताओं के लिए कृपया हमारे अनुभवी, द्विभाषी कर्मियों से संपर्क करें।

सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हैं

- समर्थन का समन्वय
- अनुकूलनीय, व्यक्तिपरक, घर में उपलब्ध सेवाएँ
- सामुदायिक पहुँच, मनोरंजन और सामाजिक समर्थन
- समूह-आधारित गतिविधियाँ
- समर्थित स्वतंत्र जीवन-यापन सेवाएँ।

हम व्यक्तियों और सामुदायिक समूहों के साथ काम करते हैं और सामाजिक सद्भाव और सामंजस्य को बढ़ावा देने व क्षेत्र में सामाजिक क्षमता के निर्माण के लिए दूसरों के साथ सहयोग करते हैं।



Community Connections Program (सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम)

Community Connections Program (सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम) आपकी सहायता कैसे कर सकता है?

- विकलांगता-ग्रस्त लोगों को स्थानीय समुदायों के अंदर गैर-एनडीआईएस निधीकृत समर्थन तक पहुँच हासिल करने में सहायता देना
- विकलांगता-ग्रस्त लोगों को मुख्यधारा की सेवाओं और गतिविधियों से जोड़ने में सहायता देना
- प्रतिभागियों को सूचित विकल्पों का चयन करने के लिए प्रासंगिक और अद्यतन जानकारी प्राप्त करने में सहायता देना
- प्रतिभागियों को अपने समुदायों के अंदर समर्थन से जुड़ने, कुशलताओं और क्षमता का निर्माण करने में सहायता देना
- विकलांगता-ग्रस्त लोगों को सशक्त बनाना।

सभी रेफरलों के लिए:

intake.ilc@sydwestms.org.au

हमारे लोग आपकी भाषा बोलते हैं और आपको अपने दैनिक जीवन में समर्थन दे सकते हैं, ताकि आप स्वतंत्र रूप से रह सकें और अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्त कर सकें।

Disability Employment Services (विकलांगता रोजगार सेवाएँ)

Disability Employment Services (DES, विकलांगता रोजगार सेवाएँ) ऑस्ट्रेलियाई सरकार की रोजगार सेवा है, जो विकलांगता, शारीरिक क्षति या रोगों से ग्रस्त लोगों को नौकरी की खोज करने और इसे बनाए रखने में सहायता देती है।

DES एक निःशुल्क सेवा है, जो विकलांगता, शारीरिक क्षति या रोगों से ग्रस्त लोगों को नौकरी खोजने और इसे बनाए रखने में सहायता देती है।

DES आपकी सहायता कैसे कर सकती है

- आपकी कार्य करने की क्षमता के अंदर उपयुक्त नौकरियों के लिए जॉब मैचिंग करना
- नौकरी के लिए आवेदनों में सहायता देना
- रेज़्यूमे बनाने में सहायता देना
- आपकी वरीयताओं के अनुरूप निर्मित सेवाएँ उपलब्ध कराना
- आपके बारे में कार्य-नियोक्ताओं को बताना
- रोजगार प्राप्त करने में बाधाओं को दूर करना
- वेतन में छूट के लिए समर्थन देना
- कार्यबल में प्रवेश करने में समर्थन के लिए प्रशिक्षण और कार्य अनुभव उपलब्ध कराना
- जब तक आपको आवश्यकता हो, तब तक कार्यस्थल में समर्थन देना।



SydWest Multicultural Services

NDIS Brokerage Services (एनडीआईएस मध्यस्थता सेवाएँ)

हम अपने ग्राहकों के लिए घर में और घर से बाहर साँस्कृतिक रूप से सक्षम देखभाल सुलभ कराने में सेवा प्रदाताओं की मदद के लिए एक मध्यस्थता सेवा प्रस्तुत करते हैं।

हमारी साँस्कृतिक रूप से सक्षम टीम अनेक भाषाएँ बोलती है और आपकी साँस्कृति को समझती है।

SydWest Multicultural Services एक पंजीकृत एनडीआईएस प्रदाता है जो विकलांगता-ग्रस्त लोगों, उनके परिवारों और उनके देखभालकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण समर्थन प्रदान करती है।

- अंग्रेज़ी
- अरबी
- इतालवी
- कैटोनीज़
- कोरियाई
- क्रोएशियाई
- ग्रीक
- चेक
- डिंका
- तमिल
- तागालोग*
- तुर्किश
- पंजाबी
- पर्शियन (फारसी/दारी)
- और कुछ फिलिपिनो बोलियाँ
- पोलिश
- फ्रेंच
- बोस्नियाई
- मंदारिन
- माडी
- माल्टीज़
- मैसेडोनियाई
- यूक्रेनियन
- रूसी
- शोना
- सर्बियाई
- स्पेनी
- हिन्दी

हमसे संपर्क करें

ब्लैकटाउन कार्यालय
Level 2
125 Main Street
Blacktown NSW 2148
फोन: 02 9621 6633
फैक्स: 02 9831 5625

माउंट ड्रुइट कार्यालय
Shop 3
6-10 Mount Street
Mt Druitt NSW 2770
फोन: 02 9625 0455
फैक्स: 02 9625 0322

पेनरिथ कार्यालय
Community Connection
Building, Suite 113
114-116 Henry Street
Penrith NSW 2750
फोन: 02 9621 6633

राउज़ हिल कार्यालय
Vinegar Hill Community Centre
Ground Floor
29 Main Street
Rouse Hill NSW 2155
फोन: 02 9621 6633